



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 8, 2006/माघ 19, 1927

No. 127]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 8, 2006/MAGHA 19, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2006

सं. 43(आर ई-2005)/2004-2009

का. आ. 194(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, निर्यात और आयात मर्दों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण, 2004—2009 में एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. निर्यात और आयात मर्दों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण 2004—2009 के अध्याय 1क की शर्त 16 (आयात नीति की सामान्य टिप्पणियों) को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

“16. हाइली पैथोजेनिक एवियन एंफ्लूएंजा (फाउल प्लेग) के प्रकोप को देखते हुए निम्नलिखित पशुधन और पशुधन उत्पादों का सभी देशों से भारत में आयात निषिद्ध होगा :—

- (i) कैद पक्षियों सहित घरेलू और वन्य पक्षी (कुक्कुट को छोड़कर);
- (ii) वन्य पक्षियों समेत एवियन प्रजातियों का असंसाधित मांस और मांस उत्पाद (कुक्कुट के अलावा);
- (iii) घरेलू और वन्य पक्षियों का वीर्य।

इसके अलावा, केन्द्र सरकार ऐसे किसी अन्य देश से भी निम्नलिखित पशुधन और पशुधन उत्पादों का भारत में आयात निषिद्ध करती है जहां से हाइली पैथोजेनिक एवियन एंफ्लूएंजा (फाउल प्लेग) के प्रकोप की सूचना प्राप्त हुई है, नामतः :—

- (i) जीवित कुक्कुट;
- (ii) एक दिन के पक्षी, बत्तखें, टर्की एवं अन्य नवजात चूजा प्रजातियां;
- (iii) अप्रसंस्कारित कुक्कुट का मांस और मांस उत्पाद;
- (iv) हैचिंग अण्डे;
- (v) अण्डा और अण्डा उत्पाद;
- (vi) पंख;
- (vii) जीवित सूअर और सूअर मांस के उत्पाद;
- (viii) पैथोलॉजिकल सामग्री तथा पक्षियों के जैविकीय उत्पाद;

(ix) पशु आहार में उपयोग के लिए या कृषि या औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित (पक्षियों से) पशुमूल के उत्पाद।”

2. उपर्युक्त निषेध अगले आदेशों तक लागू रहेगा।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/विविध-77/ए एम 04/पी सी-1क]

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2006

No. 43 (RE-2005)/2004—2009

S.O. 194(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with paragraph 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Central Government hereby amends the ITC (HS) Classification of Export and Import Items, 2004—2009 as under :

I. Condition 16 of Chapter 1A (General Notes to Import Policy) of the ITC (HS) Classifications of Export and Import items, 2004—2009 shall be amended to read as under :

"16. Import into India of the following livestock and livestock products shall be prohibited from all countries in view of the reported outbreak of Highly Pathogenic Avian Influenza (Fowl Plague):

- (i) domestic and wild birds including the captive birds (excluding poultry);
- (ii) unprocessed meat and meat products from Avian species including wild birds (except poultry);
- (iii) semen of domestic and wild birds.

Further, the Central Government hereby prohibits also the import into India from the countries reporting the outbreak of Highly Pathogenic Avian Influenza (Fowl Plague), the following livestock and livestock products, namely:

- (i) live poultry;
- (ii) day old chicks, ducks, turkey and other newly hatched Avian species;
- (iii) meat and meat product from Avian species including wild birds;
- (iv) hatching eggs;
- (v) eggs and egg products;
- (vi) feathers;
- (vii) live pig and pig meat products;
- (viii) pathological material and biological products from birds;
- (ix) product of animal origin (from birds) intended for use in animal feeding or for agricultural or industrial use."

2. The prohibition shall be in force till further orders.

This issues in public interest.

[F. No. 01/89/180/Misc.-77/AM 04/PC-1A]

K.T. CHACKO, Director General of Foreign Trade and ex-officio Addl. Secy.